

## D. P. Abhushan Limited

CIN: L74999MP2017PLC043234

**Registered Office:** 138, Chandani Chowk, Ratlam – 457001, Madhya Pradesh

**Corporate Office:** 19, Chandani Chowk, Ratlam – 457001, Madhya Pradesh

**Email:** cs@dpjewellers.com; **Web:** www.dpjewellers.com; **Phone:** +91 7412 247 122



## D. P. Jewellers

— A BOND OF TRUST SINCE 1940 —  
A VENTURE OF D.P. ABHUSHAN LIMITED

**Date:** September 06, 2024

To,  
**National Stock Exchange of India Limited**  
Exchange Plaza,  
Bandra Kurla Complex  
Bandra East, Mumbai – 400051  
**Symbol: "DPABHUSHAN"**

To,  
**BSE Limited,**  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai – 400 001  
**BSE SCRIP Code – "544161"**

Dear Sir / Madam,

**Sub: Intimation under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 - Newspaper Advertisements in respect of 7<sup>th</sup> Annual General Meeting.**

Please find enclosed herewith copy of Newspaper Advertisements published in Financial Express - (in English) and Chautha Sansar - (in Hindi) on September 6, 2024 with respect to 7<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company.

Kindly take the same on your record.

You are requested to kindly note the same.

Thanking you,

For, D. P. Abhushan Limited

Santosh Kataria  
Chairman and Managing Director  
DIN: 02855068





FINANCIAL EXPRESS

**SARINMAL INVESTMENT LIMITED**  
(CIN: L65100DL1981PLC012431)  
Regd. Off: 508, 5th Floor, Arunachal Building, Barkhamba Road, East Delhi, New Delhi-110007

**NOTICE**

The 43<sup>rd</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the members of SARINMAL INVESTMENT LIMITED will be held on Monday 30th September, 2024 at 10.30 A.M. at "S-52, MIDC, HARI, SHARADPUR, DELHI-110082" to transact the business mentioned in the Notice, including the said meeting which is being sent to the members whose name is appearing in registers on Friday 30<sup>th</sup> August, 2024 along with the Annual Report for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2024.

Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 (Act) the register of members and the share transfer books of the company will remain closed from Monday 23<sup>rd</sup> September, 2024 to Monday 30<sup>th</sup> September, 2024 (both days inclusive) Pursuant to the provisions of section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Standard 2 of the Secretarial Standard on General Meeting, the Company is pleased to provide its members the facility to exercise their right to vote by electronic means ("remote e-voting") as provided by CDSL, on all resolutions as set out in the notice of AGM.

Date and time of commencement of remote e-voting: Friday, 27<sup>th</sup> September, 2024 (9:00 A.M.)

Date and time of end of remote e-voting: Sunday, 29<sup>th</sup> September, 2024 (5:00 P.M.)

Cut-off date for determining the eligibility to vote: Friday, 20<sup>th</sup> September, 2024.

Facility for voting through ballot paper shall also be made available at the AGM. Members attending the meeting.

Members who cast their vote by remote e-voting may also attend the meeting, but shall not be able to exercise their right at the meeting.

The Notice of AGM is available on the Company website: <https://www.jollyplasticindustriesltd.in/> and on the website of CDSL [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com), under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com)

For Sarinmal Investment Limited  
Sd/-  
Nitin Agarwal  
Managing Director

Date: 06.09.2024  
Place: Delhi

**ALFA MERCANTILE LIMITED**  
16 Business Centre,  
Nehru Place, New Delhi-110028  
CIN: U51909DL1985PLC0474  
Email: [info@alfamercantile.com](mailto:info@alfamercantile.com)

**Important Information regarding dematerialization of your securities**

Dear Shareholders,

In compliance with the provisions of Section 231, every shareholder of the company holds their securities only in demat form. In this regard, the following information is being provided to you through this notice:

1. Dematization of your securities through contacting your Depository Participant. The company has taken all necessary steps with National Securities Depository Limited (NSDL) and the Company's ISIN No. is INE142F01011.

For more information, please contact your Depository Participant.

2. Dematization of your securities through contacting Alfa Mercantile Limited.

3. Dematization of your securities through contacting your Registrar.

For further information, please contact your Depository Participant.

For Sarinmal Investment Limited  
Sd/-  
Nitin Agarwal  
Managing Director

Date: 06.09.2024  
Place: Delhi

**DMR HYDROENGINEERING & INFRASTRUCTURES LIMITED**  
Registered Office: 473, Sector-30, Faridabad, Haryana, India 121003  
Tel: +91 129 4364445, Email: [cs@dmrengineering.net](mailto:cs@dmrengineering.net)  
Website: [www.dmrengineering.net](http://www.dmrengineering.net)

**NOTICE OF 15<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION**

We are pleased to inform that the 15<sup>th</sup> (Fifteenth) Annual General Meeting ("AGM") of the Members & Shareholders ("Members") of the Company ("Company") is scheduled to be held on Saturday, September 28, 2024 at 11:30 A.M. Indian Standard Time ("IST") through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the AGM Notice on Thursday, September 28, 2024 in accordance with the Companies Act, 2013 and the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and/or applicable and relevant circulars, if any, of the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and circulars dated 15<sup>th</sup>, 2023 and October 07, 2023, issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and/or applicable and relevant circulars, if any, of the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") referred to as "Relevant Circulars", the holding of the AGM through VC / OAVM has been permitted.

In compliance with the above Circulars, the electronic copies of the Notice of the 15<sup>th</sup> AGM and Annual Report for the financial year ended March 31, 2024 have been sent electronically on Thursday, September 05, 2024, to all the shareholders, whose names appear in the register of members of the Company as on the close of business hours on Monday, September 05, 2024 and whose email addresses are registered with the Company/Company's Registrar and Share Transfer Agent/Depository Participants. Physical copies of the aforesaid documents are not being sent to the shareholders in accordance with the aforesaid circulars.

In terms of section 100 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (SEBI Listing Regulations), and other applicable laws, the Company is pleased to provide to its members facility to exercise their right to vote by electronic means in respect to the business to be transacted at the AGM through remote e-voting facility before and during the AGM and the same will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The members are hereby informed that:

- The remote e-voting period before the AGM shall commence from 09:00 A.M. IST on Wednesday, September 27, 2024, and shall end at 05:00 P.M. IST on Friday, September 27, 2024. The e-voting module shall be disabled for voting thereafter.
- The members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date of Saturday, September 21, 2024, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting before and during the AGM.
- Any persons who acquires the shares and becomes the member of the Company after the completion of the notice of the AGM and voting shares as on the cut-off date i.e. Saturday, September 21, 2024, needs to refer the instructions given in the Notice of the AGM which is available on the website of the Company at [www.dmrengineering.net](http://www.dmrengineering.net) regarding the login ID and password.
- The members who are not the shareholders of the Company as on cut-off date and have not cast their votes by remote e-voting before the AGM can exercise their voting rights at the AGM through e-voting system. The manner of voting at the AGM has been provided in the Notice of the AGM.
- A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through e-voting before the AGM, but shall not be allowed to vote again at the AGM.
- Once the vote is cast by the member, the same shall not be allowed to be changed subsequently and/or to be exercised again.
- The Annual Report along with the Notice of AGM is available on the Company's website [www.dmrengineering.net](http://www.dmrengineering.net), on the website of NSDL at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and the Stock Exchange i.e. SME Platform of BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).
- For the purpose of receiving the dividend, if declared at the AGM, members who have furnished/updated their bank accounts with their depository participants, in case the shares held in electronic mode, and with the Registrar & Share Transfer Agent of the Company, in case the shares held in physical form, shall be facilitated with electronic funds by the Company. In case of non-availability or non-updation of the bank account details of the members, the Company shall ensure payment of dividend to such members vide dispatch of dividend warrant/cheque as the case may be.
- For detailed instructions pertaining to e-voting, members may please refer to the section "Notes" in the Notice of AGM. In case of any queries pertaining to e-voting procedure or voting at the AGM, shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) at the website of the Company and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) or call toll free no.: 1800 1020 900 and 1800 22 44 30 or send a request at [evoting@india.com](mailto:evoting@india.com). The members may also contact Mr. Ravinder Kumar Bhatia, Company Secretary and Compliance Officer at the Registered Office of the Company (Phone No.: +91 129 4364445; Email: [cs@dmrengineering.net](mailto:cs@dmrengineering.net)).
- Notice is also hereby given that pursuant to Regulation 42 of SEBI Listing Regulations and other applicable laws, the record date for determining the entitlement of Members to receive the dividend for the financial year ended March 31, 2024 shall be Saturday, September 21, 2024.

For DMR Hydroengineering & Infrastructures Limited  
Sd/-  
Ravinder Kumar Bhatia  
Company Secretary and Compliance Officer

Date: 06.09.2024  
Place: Faridabad

**AAJ LEGAL AND MANAGEMENT CONSULTANTS LLP (An LLP)**  
Having its registered office at:  
12th, New Daryajog Road, Opp. Officers Club, New Delhi - 110002

AND  
In the office of:  
AAJ LEGAL AND MANAGEMENT CONSULTANTS LLP (An LLP)

Notice is hereby given to the General Public in terms of the L1P proposed to make an application to the Registrar of Companies, New Delhi under Section 12(2) of the Companies Act, 2013 read with Rule 11(4) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, to register the L1P of the proposed partnership firm of the members of the LLP, M/s. AAJ Legal and Management Consultants LLP, New Delhi-110002.

The L1P is proposed to be registered under Section 232 of the Companies Act, 2013, read with Rule 11(4) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (SEBI Listing Regulations), and other applicable laws, the Company is pleased to provide to its members facility to exercise their right to vote by electronic means in respect to the business to be transacted at the AGM through remote e-voting facility before and during the AGM and the same will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The members are hereby informed that:

- The remote e-voting period before the AGM shall commence from 09:00 A.M. IST on Wednesday, September 27, 2024, and shall end at 05:00 P.M. IST on Friday, September 27, 2024. The e-voting module shall be disabled for voting thereafter.
- The members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date of Saturday, September 21, 2024, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting before and during the AGM.
- Any persons who acquires the shares and becomes the member of the Company after the completion of the notice of the AGM and voting shares as on the cut-off date i.e. Saturday, September 21, 2024, needs to refer the instructions given in the Notice of the AGM which is available on the website of the Company at [www.dmrengineering.net](http://www.dmrengineering.net) regarding the login ID and password.
- The members who are not the shareholders of the Company as on cut-off date and have not cast their votes by remote e-voting before the AGM can exercise their voting rights at the AGM through e-voting system. The manner of voting at the AGM has been provided in the Notice of the AGM.
- A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through e-voting before the AGM, but shall not be allowed to vote again at the AGM.
- Once the vote is cast by the member, the same shall not be allowed to be changed subsequently and/or to be exercised again.
- The Annual Report along with the Notice of AGM is available on the Company's website [www.dmrengineering.net](http://www.dmrengineering.net), on the website of NSDL at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and the Stock Exchange i.e. SME Platform of BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).
- For the purpose of receiving the dividend, if declared at the AGM, members who have furnished/updated their bank accounts with their depository participants, in case the shares held in electronic mode, and with the Registrar & Share Transfer Agent of the Company, in case the shares held in physical form, shall be facilitated with electronic funds by the Company. In case of non-availability or non-updation of the bank account details of the members, the Company shall ensure payment of dividend to such members vide dispatch of dividend warrant/cheque as the case may be.
- For detailed instructions pertaining to e-voting, members may please refer to the section "Notes" in the Notice of AGM. In case of any queries pertaining to e-voting procedure or voting at the AGM, shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) at the website of the Company and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) or call toll free no.: 1800 1020 900 and 1800 22 44 30 or send a request at [evoting@india.com](mailto:evoting@india.com). The members may also contact Mr. Ravinder Kumar Bhatia, Company Secretary and Compliance Officer at the Registered Office of the Company (Phone No.: +91 129 4364445; Email: [cs@dmrengineering.net](mailto:cs@dmrengineering.net)).
- Notice is also hereby given that pursuant to Regulation 42 of SEBI Listing Regulations and other applicable laws, the record date for determining the entitlement of Members to receive the dividend for the financial year ended March 31, 2024 shall be Saturday, September 21, 2024.

For DMR Hydroengineering & Infrastructures Limited  
Sd/-  
Ravinder Kumar Bhatia  
Company Secretary and Compliance Officer

Date: 06.09.2024  
Place: Faridabad

**AAJ LEGAL AND MANAGEMENT CONSULTANTS LLP (An LLP)**  
Having its registered office at:  
12th, New Daryajog Road, Opp. Officers Club, New Delhi - 110002

AND  
In the office of:  
AAJ LEGAL AND MANAGEMENT CONSULTANTS LLP (An LLP)

Notice is hereby given to the General Public in terms of the L1P proposed to make an application to the Registrar of Companies, New Delhi under Section 12(2) of the Companies Act, 2013 read with Rule 11(4) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, to register the L1P of the proposed partnership firm of the members of the LLP, M/s. AAJ Legal and Management Consultants LLP, New Delhi-110002.

The L1P is proposed to be registered under Section 232 of the Companies Act, 2013, read with Rule 11(4) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (SEBI Listing Regulations), and other applicable laws, the Company is pleased to provide to its members facility to exercise their right to vote by electronic means in respect to the business to be transacted at the AGM through remote e-voting facility before and during the AGM and the same will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The members are hereby informed that:

- The remote e-voting period before the AGM shall commence from 09:00 A.M. IST on Wednesday, September 27, 2024, and shall end at 05:00 P.M. IST on Friday, September 27, 2024. The e-voting module shall be disabled for voting thereafter.
- The members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date of Saturday, September 21, 2024, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting before and during the AGM.
- Any persons who acquires the shares and becomes the member of the Company after the completion of the notice of the AGM and voting shares as on the cut-off date i.e. Saturday, September 21, 2024, needs to refer the instructions given in the Notice of the AGM which is available on the website of the Company at [www.dmrengineering.net](http://www.dmrengineering.net) regarding the login ID and password.
- The members who are not the shareholders of the Company as on cut-off date and have not cast their votes by remote e-voting before the AGM can exercise their voting rights at the AGM through e-voting system. The manner of voting at the AGM has been provided in the Notice of the AGM.
- A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through e-voting before the AGM, but shall not be allowed to vote again at the AGM.
- Once the vote is cast by the member, the same shall not be allowed to be changed subsequently and/or to be exercised again.
- The Annual Report along with the Notice of AGM is available on the Company's website [www.dmrengineering.net](http://www.dmrengineering.net), on the website of NSDL at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and the Stock Exchange i.e. SME Platform of BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).
- For the purpose of receiving the dividend, if declared at the AGM, members who have furnished/updated their bank accounts with their depository participants, in case the shares held in electronic mode, and with the Registrar & Share Transfer Agent of the Company, in case the shares held in physical form, shall be facilitated with electronic funds by the Company. In case of non-availability or non-updation of the bank account details of the members, the Company shall ensure payment of dividend to such members vide dispatch of dividend warrant/cheque as the case may be.
- For detailed instructions pertaining to e-voting, members may please refer to the section "Notes" in the Notice of AGM. In case of any queries pertaining to e-voting procedure or voting at the AGM, shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) at the website of the Company and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) or call toll free no.: 1800 1020 900 and 1800 22 44 30 or send a request at [evoting@india.com](mailto:evoting@india.com). The members may also contact Mr. Ravinder Kumar Bhatia, Company Secretary and Compliance Officer at the Registered Office of the Company (Phone No.: +91 129 4364445; Email: [cs@dmrengineering.net](mailto:cs@dmrengineering.net)).
- Notice is also hereby given that pursuant to Regulation 42 of SEBI Listing Regulations and other applicable laws, the record date for determining the entitlement of Members to receive the dividend for the financial year ended March 31, 2024 shall be Saturday, September 21, 2024.

For DMR Hydroengineering & Infrastructures Limited  
Sd/-  
Ravinder Kumar Bhatia  
Company Secretary and Compliance Officer

Date: 06.09.2024  
Place: Faridabad

**FORM NO. UR02**  
Notice of the 7<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company, Cut-off Date and E-Voting

Notice is hereby given to the Members of the Company ("Company") in terms of the L1P proposed to make an application to the Registrar of Companies, New Delhi under Section 12(2) of the Companies Act, 2013 read with Rule 11(4) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, to register the L1P of the proposed partnership firm of the members of the LLP, M/s. AAJ Legal and Management Consultants LLP, New Delhi-110002.

The L1P is proposed to be registered under Section 232 of the Companies Act, 2013, read with Rule 11(4) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (SEBI Listing Regulations), and other applicable laws, the Company is pleased to provide to its members facility to exercise their right to vote by electronic means in respect to the business to be transacted at the AGM through remote e-voting facility before and during the AGM and the same will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The members are hereby informed that:

- The remote e-voting period before the AGM shall commence from 09:00 A.M. IST on Wednesday, September 27, 2024, and shall end at 05:00 P.M. IST on Friday, September 27, 2024. The e-voting module shall be disabled for voting thereafter.
- The members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date of Saturday, September 21, 2024, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting before and during the AGM.
- Any persons who acquires the shares and becomes the member of the Company after the completion of the notice of the AGM and voting shares as on the cut-off date i.e. Saturday, September 21, 2024, needs to refer the instructions given in the Notice of the AGM which is available on the website of the Company at [www.dmrengineering.net](http://www.dmrengineering.net) regarding the login ID and password.
- The members who are not the shareholders of the Company as on cut-off date and have not cast their votes by remote e-voting before the AGM can exercise their voting rights at the AGM through e-voting system. The manner of voting at the AGM has been provided in the Notice of the AGM.
- A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through e-voting before the AGM, but shall not be allowed to vote again at the AGM.
- Once the vote is cast by the member, the same shall not be allowed to be changed subsequently and/or to be exercised again.
- The Annual Report along with the Notice of AGM is available on the Company's website [www.dmrengineering.net](http://www.dmrengineering.net), on the website of NSDL at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and the Stock Exchange i.e. SME Platform of BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).
- For the purpose of receiving the dividend, if declared at the AGM, members who have furnished/updated their bank accounts with their depository participants, in case the shares held in electronic mode, and with the Registrar & Share Transfer Agent of the Company, in case the shares held in physical form, shall be facilitated with electronic funds by the Company. In case of non-availability or non-updation of the bank account details of the members, the Company shall ensure payment of dividend to such members vide dispatch of dividend warrant/cheque as the case may be.
- For detailed instructions pertaining to e-voting, members may please refer to the section "Notes" in the Notice of AGM. In case of any queries pertaining to e-voting procedure or voting at the AGM, shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) at the website of the Company and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) or call toll free no.: 1800 1020 900 and 1800 22 44 30 or send a request at [evoting@india.com](mailto:evoting@india.com). The members may also contact Mr. Ravinder Kumar Bhatia, Company Secretary and Compliance Officer at the Registered Office of the Company (Phone No.: +91 129 4364445; Email: [cs@dmrengineering.net](mailto:cs@dmrengineering.net)).
- Notice is also hereby given that pursuant to Regulation 42 of SEBI Listing Regulations and other applicable laws, the record date for determining the entitlement of Members to receive the dividend for the financial year ended March 31, 2024 shall be Saturday, September 21, 2024.

For DMR Hydroengineering & Infrastructures Limited  
Sd/-  
Ravinder Kumar Bhatia  
Company Secretary and Compliance Officer

Date: 06.09.2024  
Place: Faridabad

**MOHINDRA FASTENERS LIMITED**  
CIN: L74890DL1995PLC06425  
Regd. Office: 304 Gupta Arcade, Indira Enclave, Delhi - Rohini Road, New Delhi-110087  
Website: [www.moehndrafasteners.com](http://www.moehndrafasteners.com)

**CORRIGENDUM TO THE NOTICE OF 30<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)**

The Members of the Company are requested to take note that in the notice dated August 28<sup>th</sup> 2024 for convening 30<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM), scheduled to be held on Friday, September 20, 2024 at 11:30 A.M. through video conferencing (VC) or other Audio-Visual Means ("OAVM") in place of that in Item No. 6, pertaining to the appointment of Mr. Ravinder Mohan Juneja (DIN: 00006496), the description should be read as & Managing "Director of the Company" instead of "Executive Chairman". The explanatory statement remains unchanged and in the item no 4 there is a typing error it should be read relating to the remuneration payable to the cost auditor for the financial year ending 31<sup>st</sup> March, 2025 instead of 31<sup>st</sup> March, 2024. The explanatory statement should also be corrected to reflect as "31<sup>st</sup> March, 2025" other contents of the notice remain unchanged.

This corrigendum shall be an integral part and read in conjunction with the notice dated August 20, 2024. The updated version of the Notice and this corrigendum are available on the website of the company [https://moehndrafasteners.com/notice\\_main.html](https://moehndrafasteners.com/notice_main.html).

For Mohindra Fasteners Limited  
Sd/-  
(Mamta Sharma)  
Company Secretary  
Place: New Delhi  
Date: 05th September 2024

**KUMARAKRUPA FRONTIER HOTELS PVT LTD**  
CIN: U55101DL2009PLC012143  
Regd. Off: Sopa Complex, Conch 5<sup>th</sup> Floor, 7, Lax Road, New Delhi-110002

NOTICE is hereby given that the 23<sup>rd</sup> Annual General Meeting of the Company will be held on Monday, the 23<sup>rd</sup> of September, 2024 at 10.30 A.M. at "S-52, MIDC, HARI, SHARADPUR, DELHI-110082" to transact the business mentioned in the Notice, including the said meeting which is being sent to the members whose name is appearing in registers on Friday 30<sup>th</sup> August, 2024 along with the Annual Report for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2024.

Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 (Act) the register of members and the share transfer books of the company will remain closed from Monday 23<sup>rd</sup> September, 2024 to Monday 30<sup>th</sup> September, 2024 (both days inclusive) Pursuant to the provisions of section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Standard 2 of the Secretarial Standard on General Meeting, the Company is pleased to provide its members the facility to exercise their right to vote by electronic means ("remote e-voting") as provided by CDSL, on all resolutions as set out in the notice of AGM.

Date and time of commencement of remote e-voting: Friday, 27<sup>th</sup> September, 2024 (9:00 A.M.)

Date and time of end of remote e-voting: Sunday, 29<sup>th</sup> September, 2024 (5:00 P.M.)

Cut-off date for determining the eligibility to vote: Friday, 20<sup>th</sup> September, 2024.

Facility for voting through ballot paper shall also be made available at the AGM. Members attending the meeting.

Members who cast their vote by remote e-voting may also attend the meeting, but shall not be able to exercise their right at the meeting.

The Notice of AGM is available on the Company website: <https://www.jollyplasticindustriesltd.in/> and on the website of CDSL [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com), under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com)

For Sarinmal Investment Limited  
Sd/-  
Nitin Agarwal  
Managing Director

Date: 06.09.2024  
Place: New Delhi

**ALFA MERCANTILE LIMITED**  
16 Business Centre,  
Nehru Place, New Delhi-110028  
CIN: U51909DL1985PLC0474  
Email: [info@alfamercantile.com](mailto:info@alfamercantile.com)

**Important Information regarding dematerialization of your securities**

Dear Shareholders,

In compliance with the provisions of Section 231, every shareholder of the company holds their securities only in demat form. In this regard, the following information is being provided to you through this notice:

1. Dematization of your securities through contacting your Depository Participant. The company has taken all necessary steps with National Securities Depository Limited (NSDL) and the Company's ISIN No. is INE142F01011.

For more information, please contact your Depository Participant.

2. Dematization of your securities through contacting Alfa Mercantile Limited.

3. Dematization of your securities through contacting your Registrar.

For further information, please contact your Depository Participant.

For Sarinmal Investment Limited  
Sd/-  
Nitin Agarwal  
Managing Director

Date: 06.09.2024  
Place: New Delhi

**GENERAL PUBLIC NOTICE**  
In the matter of sub-section (3) of Section 13 of Limited Liability Partnership (LLP) Act, 2008

AND  
In the office of:  
AAJ LEGAL AND MANAGEMENT CONSULTANTS LLP (An LLP)

Notice is hereby given to the General Public in terms of the L1P proposed to make an application to the Registrar of Companies, New Delhi under Section 12(2) of the Companies Act, 2013 read with Rule 11(4) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, to register the L1P of the proposed partnership firm of the members of the LLP, M/s. AAJ Legal and Management Consultants LLP, New Delhi-110002.

The L1P is proposed to be registered under Section 232 of the Companies Act, 2013, read with Rule 11(4) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (SEBI Listing Regulations), and other applicable laws, the Company is pleased to provide to its members facility to exercise their right to vote by electronic means in respect to the business to be transacted at the AGM through remote e-voting facility before and during the AGM and the same will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The members are hereby informed that:

- The remote e-voting period before the AGM shall commence from 09:00 A.M. IST on Wednesday, September 27, 2024, and shall end at 05:00 P.M. IST on Friday, September 27, 2024. The e-voting module shall be disabled for voting thereafter.
- The members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date of Saturday, September 21, 2024, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting before and during the AGM.
- Any persons who acquires the shares and becomes the member of the Company after the completion of the notice of the AGM and voting shares as on the cut-off date i.e. Saturday, September 21, 2024, needs to refer the instructions given in the Notice of the AGM which is available on the website of the Company at [www.dmrengineering.net](http://www.dmrengineering.net) regarding the login ID and password.
- The members who are not the shareholders of the Company as on cut-off date and have not cast their votes by remote e-voting before the AGM can exercise their voting rights at the AGM through e-voting system. The manner of voting at the AGM has been provided in the Notice of the AGM.
- A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through e-voting before the AGM, but shall not be allowed to vote again at the AGM.
- Once the vote is cast by the member, the same shall not be allowed to be changed subsequently and/or to be exercised again.
- The Annual Report along with the Notice of AGM is available on the Company's website [www.dmrengineering.net](http://www.dmrengineering.net), on the website of NSDL at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and the Stock Exchange i.e. SME Platform of BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).
- For the purpose of receiving the dividend, if declared at the AGM, members who have furnished/updated their bank accounts with their depository participants, in case the shares held in electronic mode, and with the Registrar & Share Transfer Agent of the Company, in case the shares held in physical form, shall be facilitated with electronic funds by the Company. In case of non-availability or non-updation of the bank account details of the members, the Company shall ensure payment of dividend to such members vide dispatch of dividend warrant/cheque as the case may be.
- For detailed instructions pertaining to e-voting, members may please refer to the section "Notes" in the Notice of AGM. In case of any queries pertaining to e-voting procedure or voting at the AGM, shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) at the website of the Company and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) or call toll free no.: 1800 1020 900 and 1800 22 44 30 or send a request at [evoting@india.com](mailto:evoting@india.com). The members may also contact Mr. Ravinder Kumar Bhatia, Company Secretary and Compliance Officer at the Registered Office of the Company (Phone No.: +91 129 4364445; Email: [cs@dmrengineering.net](mailto:cs@dmrengineering.net)).
- Notice is also hereby given that pursuant to Regulation 42 of SEBI Listing Regulations and other applicable laws, the record date for determining the entitlement of Members to receive the dividend for the financial year ended March 31, 2024 shall be Saturday, September 21, 2024.

For DMR Hydroengineering & Infrastructures Limited  
Sd/-  
Ravinder Kumar Bhatia  
Company Secretary and Compliance Officer

Date: 06.09.2024  
Place: Faridabad

**AAJ LEGAL AND MANAGEMENT CONSULTANTS LLP (An LLP)**  
Having its registered office at:  
12th, New Daryajog Road, Opp. Officers Club, New Delhi - 110002

AND  
In the office of:  
AAJ LEGAL AND MANAGEMENT CONSULTANTS LLP (An LLP)

Notice is hereby given to the General Public in terms of the L1P proposed to make an application to the Registrar of Companies, New Delhi under Section 12(2) of the Companies Act, 2013 read with Rule 11(4) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, to register the L1P of the proposed partnership firm of the members of the LLP, M/s. AAJ Legal and Management Consultants LLP, New Delhi-110002.

The L1P is proposed to be registered under Section 232 of the Companies Act, 2013, read with Rule 11(4) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (SEBI Listing Regulations), and other applicable laws, the Company is pleased to provide to its members facility to exercise their right to vote by electronic means in respect to the business to be transacted at the AGM through remote e-voting facility before and during the AGM and the same will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The members are hereby informed that:

- The remote e-voting period before the AGM shall commence from 09:00 A.M. IST on Wednesday, September 27, 2024, and shall end at 05:00 P.M. IST on Friday, September 27, 2024. The e-voting module shall be disabled for voting thereafter.
- The members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date of Saturday, September 21, 2024, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting before and during the AGM.
- Any persons who acquires the shares and becomes the member of the Company after the completion of the notice of the AGM and voting shares as on the cut-off date i.e. Saturday, September 21, 2024, needs to refer the instructions given in the Notice of the AGM which is available on the website of the Company at [www.dmrengineering.net](http://www.dmrengineering.net) regarding the login ID and password.
- The members who are not the shareholders of the Company as on cut-off date and have not cast their votes by remote e-voting before the AGM can exercise their voting rights at the AGM through e-voting system. The manner of voting at the AGM has been provided in the Notice of the AGM.
- A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through e-voting before the AGM, but shall not be allowed to vote again at the AGM.
- Once the vote is cast by the member, the same shall not be allowed to be changed subsequently and/or to be exercised again.
- The Annual Report along with the Notice of AGM is available on the Company's website [www.dmrengineering.net](http://www.dmrengineering.net), on the website of NSDL at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and the Stock Exchange i.e. SME Platform of BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).
- For the purpose of receiving the dividend, if declared at the AGM, members who have furnished/updated their bank accounts with their depository participants, in case the shares held in electronic mode, and with the Registrar & Share Transfer Agent of the Company, in case the shares held in physical form, shall be facilitated with electronic funds by the Company. In case of non-availability or non-updation of the bank account details of the members, the Company shall ensure payment of dividend to such members vide dispatch of dividend warrant/cheque as the case may be.
- For detailed instructions pertaining to e-voting, members may please refer to the section "Notes" in the Notice of AGM. In case of any queries pertaining to e-voting procedure or voting at the AGM, shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) at the website of the Company and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) or call toll free no.: 1800 1020 900 and 1800 22 44 30 or send a request at [evoting@india.com](mailto:evoting@india.com). The members may also contact Mr. Ravinder Kumar Bhatia, Company Secretary and Compliance Officer at the Registered Office of the Company (Phone No.: +91 129 4364445; Email: [cs@dmrengineering.net](mailto:cs@dmrengineering.net)).
- Notice is also hereby given that pursuant to Regulation 42 of SEBI Listing Regulations and other applicable laws, the record date for determining the entitlement of Members to receive the dividend for the financial year ended March 31, 2024 shall be Saturday, September 21, 2024.

For DMR Hydroengineering & Infrastructures Limited  
Sd/-  
Ravinder Kumar Bhatia  
Company Secretary and Compliance Officer

Date: 06.09.2024  
Place: Faridabad

**FORM NO. UR02**  
Notice of the 7<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company, Cut-off Date and E-Voting

Notice is hereby given to the Members of the Company ("Company") in terms of the L1P proposed to make an application to the Registrar of Companies, New Delhi under Section 12(2) of the Companies Act, 2013 read with Rule 11(4) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, to register the L1P of the proposed partnership firm of the members of the LLP, M/s. AAJ Legal and Management Consultants LLP, New Delhi-110002.

The L1P is proposed to be registered under Section 232 of the Companies Act, 2013, read with Rule 11(4) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (SEBI Listing Regulations), and other applicable laws, the Company is pleased to provide to its members facility to exercise their right to vote by electronic means in respect to the business to be transacted at the AGM through remote e-voting facility before and during the AGM and the same will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The members are hereby informed that:

- The remote e-voting period before the AGM shall commence from 09:00 A.M. IST on Wednesday, September 27, 2024, and shall end at 05:00 P.M. IST on Friday, September 27, 2024. The e-voting module shall be disabled for voting thereafter.
- The members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date of Saturday, September 21, 2024, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting before and during the AGM.
- Any persons who acquires the shares and becomes the member of the Company after the completion of the notice of the AGM and voting shares as on the cut-off date i.e. Saturday, September



एक नजर

इंदौर। अजयू। ई इलाके में खेले वाले इंदौर के पंजी ने फांसी लगाई... इंदौर। अजयू। ई इलाके में खेले वाले इंदौर के पंजी ने फांसी लगाई...



इंदौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पिताजी श्री प्रमूखचंद्र यादव के निधन पर संभाव्यवत दीपकसिंह, पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता समेत अधिकारियों ने उज्जैन पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की।

कार कंपनी के मालिक ने कार्या हेराफेरी का केस

इंदौर। इंदौर के एक कंपनी के मालिक को एक विवादास्पद केस का सामना करना पड़ा है... कार कंपनी के मालिक ने कार्या हेराफेरी का केस...

टेकवार की एलडीसी ने मौत

इंदौर। बा प्रमाण के अभाव में एक टेकवार को मृत घोषित किया गया... टेकवार की एलडीसी ने मौत...

नाम परिवर्तन सूचना
पुं ने मेरा नाम परिवर्तन किया है... नाम परिवर्तन सूचना...

नाम परिवर्तन सूचना
सर्वप्रथम को सुनिश्चित किया जाता है कि... नाम परिवर्तन सूचना...

राजेश्वरी शिवरात्रि
हो गया है। आज भूरे हीरा नाम से जाना... राजेश्वरी शिवरात्रि...

जाहर सूचना
सर्वप्रथम को सुनिश्चित किया जाता है कि... जाहर सूचना...

12 साल की बच्ची का हाथ पकड़ा तो काटकर छुड़ाया

नागपुर सेहली के घर आ गई, फिर मुंबईले अंकल घर दर्ज करवाया केस... 12 साल की बच्ची का हाथ पकड़ा तो काटकर छुड़ाया...

बाणगंगा रेलवे क्रॉसिंग पेट्रोल पंप ऑफिस में घुसकर चाकू मारे

इंदौर। इंदौर के बाणगंगा रेलवे क्रॉसिंग के खंड एक युवक को रेल रतन तीन बयसामों ने चाकू मार दिया... बाणगंगा रेलवे क्रॉसिंग पेट्रोल पंप ऑफिस में घुसकर चाकू मारे...

D.P Jewellers
डी. पी. आभूषण लिमिटेड
CIN: L74999MP2017PLC043234

कंपनी के खासदारों का वारंट जारी
कंपनी के खासदारों का वारंट जारी... कर्जा के खासदारों का वारंट जारी...

कैंची मार कर हत्या करने वाला पकड़ाया

इंदौर। इंदौर के एक युवक की कैंची मार कर हत्या कर दी गई... कैंची मार कर हत्या करने वाला पकड़ाया...

GODHA Godha Cabcon & Insulation Limited
Reg. Office: 36/40, Sector-B, Sarwar Road Industrial Area, Indore-462 006 (M.F.)

Notice of 08th Annual General Meeting and Remote e-voting
Notice is hereby given that the 08th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Godha Cabcon & Insulation Limited on Monday, 30th September, 2024 at 02.00 PM (IST) through Physical mode at the registered office of the Company...

इंदौर आए मेट्रो के एमडी ने अडवायर्स से पूजा कर्मास्थल एन में कितना काम बचा है मेट्रो कार्यालय में एमडी ने प्रोजेक्ट के हर विषय पर अधिकारियों से जवाब मागे

MOHINI Health & Hygiene
मोहिनी हेल्थ एंड हाइजीन लिमिटेड
पंजीकृत एंड कायरेक्टर कार्यालय: प्लॉट नंबर 109, सेक्टर 3

गौरी कर्मचारी कल्याण
गौरी कर्मचारी कल्याण... गौरी कर्मचारी कल्याण...

रामण पीएमयू
दिनांक 06-09-2024
बावरे: मोहिनी हेल्थ एंड हाइजीन लिमिटेड

कार्यालय नगर पालिका परिषद नागडा, जिन्दा उज्जैन

Table with 4 columns: क्र. (No.), मीटर/का (Meter/Cable), वर्गीकरण (Classification), स्थिति (Status), and other details regarding water supply and metering.